

प्रत्यक्ष जमा भुगतान सेवा (Direct deposit payment service)

प्रत्यक्ष जमा एक ऐसी भुगतान सेवा है, जिसमें किसी विशेष भुगतान तारीख को आपके निर्धारित बैंक खाते में भुगतान सीधे जमा किए जाते हैं। इस सेवा की पेशकश उन घायल कर्मचारियों को की जाती है:

- जिनकी लम्बी अवधि की पेंशन होती है
- जिन्हें आर्थिक क्षति का भुगतान किया जाता है
- जो क्षति पूरक कमा रहे हैं
- जो अस्थायी आर्थिक क्षति उठा रहे हैं
- जिन्हें आंशिक विकलांगता होती है
- अस्थायी पूर्ण विकलांगता होती है

प्रत्यक्ष जमा का प्रयोग क्यों करें?

यह सुविधाजनक सेवा मुफ्त में प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष जमा का अर्थ है कि अब आपको उन विलंबों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो चेकों की प्रोसेसिंग से हो सकते हैं। इसके अलावा, आप डाक में रुकावट या गलत पते की स्थिति में भुगतान में किसी विलंब का सामना नहीं करेंगे।

प्रत्यक्ष जमा तीव्र, सुरक्षित और संरक्षित है। प्रत्यक्ष जमा के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चेकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और गोपनीय है, क्योंकि भुगतान की सुपुर्दगी और जमा में कम चरण होते हैं।

प्रत्यक्ष जमा के लिए साइन अप करना।

केवल प्रत्यक्ष जमा के लिए कर्मचारी अनुरोध/परिवर्तन फॉर्म को प्रिंट करें और भरें और यह सुनिश्चित करें कि आपने समस्त आवश्यक बैंकिंग सूचना को सम्मिलित किया है। आप अपना फॉर्म इस पते पर भेज सकते हैं: P.O. Box 2415 Edmonton AB T5J 2S5. आप अपनी जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे 780-498-7776 पर फैक्स भी कर सकते हैं जो एक सुरक्षित फैक्स नंबर है। प्रत्यक्ष जमा के लिए आपके आवेदन पर 10 कार्यदिवसों में कार्रवाई की जाएगी।

अपने भुगतान की स्थिति जानना

पेंशनों और आर्थिक क्षति के भुगतानों के सिवाय, भुगतान के सभी प्रकार एक विवरण प्राप्त करेंगे जिसमें उन लाभों की सूची दी गई होगी जिन्हें आपके बैंक खाते में जमा करवा दिया गया है।

आप कर्मचारी की ऑनलाइन सेवाओं (Worker's Online Services) के लिए साइन अप करके अपने भुगतान की स्थिति की ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं।

अपना अस्थायी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमारे किसी "दावा संपर्क केंद्र" (Claims Contact Centre) प्रतिनिधि से बात करें।

आपकी बैंकिंग जानकारी बदलना

यदि आपकी बैंकिंग जानकारी में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो आप हमसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। WCB के लिए लिखित में दो सप्ताह के नोटिस की ज़रूरत होती है।

